



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.07.2022

1-थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा ई रिक्शा लूटेरे बदमाशों के बीच पुलिस मुठभेड में 01 बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार तथा 02 बदमाश कांबिंग के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा लूटा हुआ 01 ई रिक्शा बरामद।

दिनांक 31/07/2022 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सेक्टर 96 से सेक्टर 98 की तरफ जाने वाले रोड पर ई रिक्शा में सवार तीन व्यक्तियों को रूकने का इशारा किया गया जिसपर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयत्न किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गयी गोली पैर में लगने के कारण बदमाश 1. रोहित उर्फ मोनू उर्फ राहुल पुत्र अनिल वाल्मिकी निवासी गली न0-14 ग्राम गेझा सेक्टर-93 थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर पूर्व पता डबली झुग्गी झोपडी के पास जहांगीरपुरी दिल्ली(घायल) को घायल अवस्था में व 02 बदमाश 2. राज राजपूत पुत्र संतोष निवासी सेक्टर-93, नोएडा पूर्व पता कानपुर देहात व मनीष पुत्र महेन्द्र वर्तमान पता गेझा, पूर्व पता जनपद एटा को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा तथा एक तमंचा .315 बोर मय 2 खोखा कारतूस व 2 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

कल दिनांक 30/7/ 2022 को समय करीब 3:30 बजे दोपहर में वादी राजेश शाह पुत्र तालवेशर शाह निवासी ग्राम झरिया, थाना बुरा गढ जिला धनबाद, बिहार वर्तमान पता सेक्टर-17 की झुग्गी झोपडी से उक्त 3 बदमाशों ने रजनीगंधा चौक, सेक्टर-16 से ई-रिक्शा बुक कराकर महामाया फ्लाइओवर के पास गलत रास्ते पर ले जाकर रिक्शा लूट लिया गया तथा वादी को फेंक दिया गया था जिस के संबंध में थाना सेक्टर-39 पर लूट का अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. रोहित उर्फ मोनू उर्फ राहुल पुत्र अनिल वाल्मिकी निवासी गली न0-14 ग्राम गेझा सेक्टर-93 थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर पूर्व पता डबली झुग्गी झोपडी के पास जहाँगिर पुरी दिल्ली(घायल)
2. राज राजपूत पुत्र संतोष राजपूत निवासी गली न0-14 ग्राम गेझा सेक्टर-93 थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर पूर्व पता कानपुर माल रोड के पास मौहल्ला खपडा कानपुर देहात
3. मनीष धोबी पुत्र महेन्द्र वर्तमान पता अनुज गुर्जर का मकान गली न0- 2 ग्राम गेझा सैक्टर-93 थाना फेस-2 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

रोहित उर्फ मोनू उर्फ राहुल पुत्र अनिल वाल्मिकी

1. मु0अ0स0 458/22 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 460/22 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 461/22 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0 11136/2020 धारा 379 भादवि थाना भरत नगर दिल्ली
5. मु0अ0स0 331/2020 धारा 379/411 भादवि थाना भरत नगर दिल्ली
6. मु0अ0स0 619/2020 धारा 379/411 भादवि थाना आदर्श नगर दिल्ली
7. मु0अ0स0 615/2020 धारा 379/411 भादवि, थाना आदर्श नगर दिल्ली

राज राजपूत पुत्र संतोष राजपूत

1. मु0अ0स0 458/22 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 460/22 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

मनीष धोबी पुत्र महेन्द्र

1. मु0अ0स0 458/22 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 460/22 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 ई रिक्शा नं0 यूपी 16 एचटी 06410 458/22 धारा 392/411 भादवि
2. 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#थाना जेवर पुलिस द्वारा घर के बाहर खेलते समय गुमशुदा हुए 07 वर्षीय बच्चे को तलाश कर मिलाया परिजानो से।

दिनांक 31.07.2022 को थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चा उम्र 07 वर्ष निवासी मोहल्ला सल्लिमान जेवर घर के बाहर खेलते हुये कहीं चला गया था सूचना पर थाना जेवर पुलिस द्वारा बच्चे को ढूँढने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुये बच्चे को ग्राम नीमका में खोज लिया गया जो कि खेलते खेलते ग्राम नीमका में आ गया था। पुलिस द्वारा बच्चे को परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस की इस कार्यवाही पर बच्चे की मां व स्थानीय निवासियों ने पुलिस का आभार जताया।

#थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा, घर से गुस्सा होकर गुमशुदा हुए 12 वर्षीय बच्चे को तलाश कर मिलाया परिजानो से।

दिनांक 31.07.2022 को थाना नालेज पार्क क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चा उम्र 12 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट सलेमपुर थाना जसराना जिला फिरोजाबाद वर्तमान पता ग्राम तुगलपुर थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर घर से गुस्सा होकर कहीं चला गया था। इस सूचना पर थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुये बच्चे को ग्राम तुगलपुर से बरामद कर बच्चे को परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा किये गये इस कार्य की परिजनों एवं आसपास के व्यक्तियों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।